





रपुमगेपप्याउठीउमेभपुकोउउसद्विगभीता शुभा  
 सुभेसुमिचणभभपुंभगमुंमंवित्रडा कुभभभोरठ  
 पानभतुः ॥१॥ उकुभुउनुनिराकुपभकापूठवय  
 कुरुवित्रुणगीपुविलीनभाभीता सुसुपूठापुभर  
 पुगिउभवलेकंमउसुिमभुगपमनउममुभाति ॥३॥  
 यत्रनवागिउभनल् विकल् एलविप्रभिरभुउभवा  
 पनयउवेमभा सुकुमठिउविषभाजनकिउभाजेमउभुममुभउ  
 सिवभकिगनुः ॥७॥ येगवुडागिनियभरुपभविडापिनवापम  
 ज्ञनपवकिनयभुरुउ भंविदियंभठगभुलिउठगृभभुउ  
 मुममुनराठडिभुउनुमेकभा ॥०॥ सुःयैकभारःउठीम  
 उडिपुयडाइंभापपकिनयभुवकुवदेयः सिधुभपव  
 परमिमुभभभभुभाहीविःसुयडिउभुविभुत्रिभाभुभा ००॥  
 उधुकागलकरवानवित्रभुभानं पदिभुडाउविठवंरुपं  
 वकुव उभुरकिद्वनउयापिउममुमेउभुइवभभपवदध  
 भुमारभाभु ०१॥ कभुलिउभुभरुउभुठनंउमउउ उमय  
 भुवउउेयभनउनः भिंविमियागलिउठमविकल् य  
 यमकेभुउभुपिनैवविभुमुमे इभा ०३॥ वडुभुइ  
 मननाभ नमिउमिधु वराभरुवयभदेभुमिडाठवामः य  
 इंभापिपगवित्रुउर मेवभभुइभुगभनुउरंपरिलेकयामः  
 ०५॥ पुनेउरेपिनकममनकंमनपि कुडापिनितुडिमं  
 वउयत्रनेठ सिधुविभभुपिभंरुवदभभुमेउभुममुन

विभुद्विपविप्रभुभा ०५ ॥ भवेपुमिउभपुपेविषयमुमेपु  
 वकुभयःभउउभभुमिडाठिनपः देवाववापुपामेसुव  
 पगिरुउंउपुविनीनःवधुद्विउमदुनइभा ०० ॥ येविद्वि  
 यैरभिवमीकउमत्रिमेउःप्रवंकमत्रिउभकुगदिउेविवेसुः  
 सुसुनिकेउपरमिमुभभंविठइत्रिधुमु उरत्रमरेविवगए  
 मेइभा ०१ ॥ मित्रुंउडावकनं पुनेनपप्रवं यउपुमदि  
 डिठयंरविरुदिगए मेउभुममुयभिमंनिराकुपभोकुदि  
 धुमुनिदुयमभभभुडाउभभु ०३ विडुंयमेउमठ व  
 सिठनपुयभंदेवाकमुत्रनिउभपुविडाउठवभा भंवि  
 उठवभभभुडिप्रुठभानंदिधुउममुनिउगंभुद  
 यभाभु ०७ मित्रुंमडाउनेउंरउिकंममिमुंउठवम  
 ठराउेकभपिकुं यडा मेउसुिमइकभिमंभकनेविने  
 देभुपुप्रुवमुभिवनितउउपभाभु ३ वरुभदेकिभुन  
 मःकिभुगोरवे नद्वे मिउकिभुनाभनिपीरुया  
 मः मंभुपुद्वत्रुभदेमयमेवभभुंकेउकेनकिभुमि  
 इविनेकयामः ३० सुपुमुडाभियभनदिपनपुव  
 वुभेदत्रविमुदुययादुययांमुभाया भंमेवुंभुठ  
 गमेवपमपुवेसभंभुपुमुत्रुभदेमयभुत्रिनकीः ३३  
 किंभुभदेउठवउभुउउभभुभवामिधामविषयंनर  
 उमइभा यद्वगउडिगउविद्वनविठिकल् भुसुठमदु  
 रपमेठराभंनगभा ३३ मिडुंयमेउमभंयमउउ



येषु पुत्रेषु विदुःसि मा भवतु भावमा दुःखेषु भूदुःख  
वेषु पि मितु भद्र प्रकृष्ट भवेत् भवितु भद्रम सु ३३ विभु  
निगीय भद्रभाक्वने विगय काने प्रमा तु गणे पम मि  
वृत्तुः पागला उरि न पमा भु ३३ प्रकृष्टभाक्व पाये  
सगति लयति दुःखीया ३४ उकार उरि पउयः पूनये  
पूयाति यमि न्द्रवत् उरि विधम गठीर सति विरेव पू  
वपि प्रभठं सुतेति उमुभमं सुय मि वीर वर दुःखभा ३५  
विदुःसि नाभम पने विरवे नडा स्त्री रुरुत्तु उरुग उरि मि  
मी वि उभिना मि तु दुयै व वि मि उं सुय उ वि ना मि मि गे  
स कान क न वा ग दि उं प म उ डा ३७ शुभु भु उ भु र वि क भु  
व म भु मा य म भु पु मा कुरु प मे मि उ म भु मा य सु वार  
मं भु डि मा भु पि नि वि का र वि हे मि डा उ वि र वा य र वा  
रु या य ३३ शुभु न्द्र वि न्द्र न भं मि उ वि वि के उ मं वि दु ग  
व म म भु डि नि रु र मि मि पु सु भु न्द्र भा पा भु र म पृ न  
दु र सु द म न क र्ध न म य वि मि उे मि ३७ उर व न  
दु वि सु ते मे र सु प ध म रे पु गे वि ध म वि ध य रे सु र सु  
वि वे स व सी रु उः मि व प म भु न मि न्द्रु वे वा र्वा प्र म भा  
मं कि म पि भु पि उे म सुं म सुं वि म सुं डि म भु उ मा ३८  
नि रा व र मि सुं म प र म भु उ वि रुः न गा ठि ठे वु न  
मं नं मि तु भ उे ध डि म क मा ३० उ डि सी भु भु म दे सु  
न म य सी न गा न्ने न वि प मि सु र वि र मि डा मि तु भ उे ध



NATIONAL MISSION FOR MANUSCRIPTS  
MANUS DATA

DSO 00001 7688

Record No.	Organization / Individual
	7688

Name of the Institution	Oriental Research Library University Campus, Hazaratbal, Srinagar.	Communication Address	Department of Libraries and Research Municipal Complex, Karanagar, Srinagar.
Personal Collection			

Title of the Text	Cittaslamtoṣa	Bundle No:.....	Acc. No./Manuscript No. 2347
Other Title		No. of Folios.....	Pages.....
Author	Nāgārjuna	Size of Mss. 25.2 cm x 17.5 cm	Material: Paper/palm leaf/birch-bark/cloth/leather/others
Commentary	NO	Missing portion	NO
Commentator	NO	Illustrations	NO
Language	Sanskrit	Complete/Incomplete	Condition: Good/bad/brittle/worm eaten.Fungus/Stuck
Script	Śārdā	Source of Catalogue:	Descriptive/Hand list/Alphabetical/Index card
Date of Manuscript		Colour of Manuscripts	Red
Key words	Sāra Darśana	Remarks	Loose folios.
Subject	Shāivism		

25.2.20